

परिवार & देखभालकर्ता • रोग, व्यवहार & प्रियजनों की देखभाल

परिवार 20 €



अल्जाइमर: बीमारी को समझना और दैनिक जीवन के लिए समाधान खोजना

शुरू करें

अल्जाइमर: बीमारी को समझना और दैनिक जीवन के लिए समाधान खोजना

- रोग के चरणों और प्रगति को पहचानें
- संचार और गतिविधियों को अनुकूलित करें
- घर को सुरक्षित बनाएं और दैनिक जीवन को आसान बनाएं
- याददाश्त की समस्याओं को प्रबंधित करें और स्वायत्तता बनाए रखें

परिवार

20 €



FAST : बीमारी को समझना और दैनिक जीवन के लिए समाधान खोजना

शुरू करें

FAST : बीमारी को समझना और दैनिक जीवन के लिए समाधान खोजना

- FAST संकेतों को पहचानें और तुरंत कार्य करें
- संज्ञानात्मक उत्तेजना के सरल अभ्यास
- घर को अनुकूलित करें और दिन को संरचित करें
- सही पेशेवरों और संसाधनों को खोजें

परिवार

20 €



पार्कसिंस: बीमारी को समझना और रोजमर्रा के लिए समाधान खोजना

शुरू करें

पार्कसिंस: बीमारी को समझना और रोजमर्रा के लिए समाधान खोजना

- लक्षणों और प्रगति को पहचानें
- संचार और गतिविधियों को अनुकूलित करें
- गिरने से बचाव करें और गतिशीलता बनाए रखें
- उपचार और उनके दुष्प्रभावों को समझें

परिवार

20 €



AVC और अफ़ज़ा: अपने प्रियजन के साथ अन्य तरीकों से कैसे संवाद करें

शुरू करें

AVC और अफ़ज़ा: अपने प्रियजन के साथ अन्य तरीकों से कैसे संवाद करें

- स्ट्रोक के बाद भाषा विकारों को समझें
- वैकल्पिक और संवर्धित संचार तकनीकें
- भावनात्मक संबंध और स्वायत्तता बनाए रखें
- विशेषज्ञ पेशेवरों का सहारा लें

परिवार

20 €



पार्कसिंस में संज्ञानात्मक और भावनात्मक समस्याएँ: परिवारों को क्या जानना चाहिए

शुरू करें

पार्कसिंस में संज्ञानात्मक और भावनात्मक समस्याएँ: परिवारों को क्या जानना चाहिए

- याददाश्त, ध्यान और संज्ञानात्मक धीमापन
- मूड परिवर्तन और चिंता को प्रबंधित करें
- प्रियजन के प्रोफाइल के अनुसार गतिविधियाँ अनुकूलित करें
- छद्म के प्रसंगों को रोके और साथ दें

परिवार

20 €



<1>सहायक और पार्कसिन: दीर्घकालिक समस्याएँ: स्मृति, ध्यान और दैनिक जीवन के लिए आत्म-देखभाल करना</1>

शुरू करें

सहायक और पार्कसिन: दीर्घकालिक समस्याएँ: स्मृति, ध्यान और दैनिक जीवन के लिए आत्म-देखभाल करना

- देखभालकर्ता थकान के संकेतों को पहचानें
- राहत, सहायता और संसाधन उपकरण
- अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखें
- मदद मांगने के महत्वपूर्ण क्षणों को पहचानें

परिवार

20 €



बीमारी से संबंधित व्यवहार में परिवर्तन: निकट संबंधियों के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शिका

शुरू करें

बीमारी से संबंधित व्यवहार में परिवर्तन: निकट संबंधियों के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शिका

- व्यवहार परिवर्तनों के तंत्रिका संबंधी कारणों को समझें
- तनाव को कम करने की तकनीकें
- शिगाड़े बिना प्रतिक्रिया करें, संकटों को रोके
- ट्रिगर को कम करने के लिए वातावरण को अनुकूलित करें

परिवार

20 €



AVC और जोड़ीदार जीवन: परीक्षा से गुजरना और एक पुनर्निर्माण करना

शुरू करें

AVC और जोड़ीदार जीवन: परीक्षा से गुजरना और एक साथ पुनर्निर्माण करना

- स्ट्रोक के बाद व्यक्तिगत परिवर्तनों को समझें
- जोड़े में भूमिकाओं को पुनर्संतुलित करें
- अंतरंगता और साझेदारी फिर से खोजें
- नई आवश्यकताओं और सीमाओं के बारे में संवाद करें

परिवार

20 €



स्ट्रोक के बाद संज्ञानात्मक समस्याएँ: स्मृति, ध्यान और दैनिक जीवन के लिए आत्म-देखभाल करना

शुरू करें

स्ट्रोक के बाद संज्ञानात्मक समस्याएँ: स्मृति, ध्यान और दैनिक जीवन के लिए आत्म-देखभाल करना

- सामान्य संज्ञानात्मक परिणामों को पहचानें
- स्मृति और संगठन सहायता उपकरणों का उपयोग करें
- घर और दैनिक गतिविधियों को अनुकूलित करें
- स्ट्रोक के बाद की थकान को सहयोग दें

परिवार

20 €

परिवार & देखभालकर्ता · बच्चे, किशोर & न्यूरोडायवर्सिटी — भावनाएँ, व्यवहार, आवेगशीलता

परिवार 20 €

एक ऑटिज़्म वाले बच्चे का साथ देना: दैनिक जीवन में कुंजी और समाधान

शुरू करें

- एक ऑटिज़्म वाले बच्चे का साथ देना: दैनिक जीवन में कुंजी और समाधान**
- संवेदी और भावनात्मक विशेषताओं की पहचान करें
 - दृश्य सहायता और आश्रय करने वाली दिनचर्या का उपयोग करें
 - सामाजिक कौशल और स्वायत्तता को बढ़ावा दें
 - घर और स्कूल के वातावरण को अनुकूलित करें

परिवार 20 €

एक ऑटिस्टिक बच्चे की भावनाओं को प्रबंधित करना

शुरू करें

- एक ऑटिस्टिक बच्चे की भावनाओं को प्रबंधित करना**
- ऑटिस्टिक प्रोफाइल में भावनात्मक ट्रिगर की पहचान करें
 - संवेदी प्रोफाइल के अनुसार विनियमन उपकरण
 - भावनात्मक संकेतों को रोके और निष्क्रिय करें
 - व्यक्तिगत विनियमन किट बनाएं

परिवार 20 €

ऑटिज़्म: दैनिक जीवन में कठिन परिस्थितियों का प्रबंधन

शुरू करें

- ऑटिज़्म: दैनिक जीवन में कठिन परिस्थितियों का प्रबंधन**
- चुनौतीपूर्ण व्यवहारों को समझें (आत्म-नुकसान, आक्रामकता)
 - रोकथाम और प्रत्याशा की रणनीतियाँ
 - स्थिति को बिगाड़े बिना प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करें
 - बार-बार होने वाली स्थितियों के लिए कार्य योजना बनाएं

परिवार 20 €

टीडीएच वाले बच्चे का साथ देना: रोज़मर्रा की कुंजी और समाधान

शुरू करें

- टीडीएच वाले बच्चे का साथ देना: रोज़मर्रा की कुंजी और समाधान**
- TDAH मस्तिष्क और उसकी विशेष आवश्यकताओं को समझें
 - दिनचर्या और घर के वातावरण को संरचित करें
 - एकाग्रता और सीखने को बढ़ावा दें
 - दैनिक जीवन में माता-पिता-बच्चे के संबंध को संरक्षित रखें

परिवार 20 €

घर में ADHD बच्चा: आवेग और विरोध को प्रबंधित करने के लिए उन्नत रणनीतियाँ

शुरू करें

- घर में ADHD बच्चा: आवेग और विरोध को प्रबंधित करने के लिए उन्नत रणनीतियाँ**
- संरचनात्मक वातावरण और संघर्ष में कमी
 - संक्रमण, गृहकार्य और सोने के समय का प्रबंधन
 - TDAH बच्चे के साथ गैर-संघर्षपूर्ण संचार
 - पारिवारिक मानसिक बोझ का प्रबंधन करें

परिवार 20 €

किशोर में ADHD: आवेगशीलता और विरोध को प्रबंधित करने के लिए उन्नत रणनीतियाँ

शुरू करें

- किशोर में ADHD: आवेगशीलता और विरोध को प्रबंधित करने के लिए उन्नत रणनीतियाँ**
- किशोरवस्था में TDAH मस्तिष्क: मुख्य तंत्र
 - ढाँचा, सीमाएँ और अनुकूलित दिनचर्या
 - विरोध को बिना बढ़ाए निष्क्रिय करें
 - माता-पिता-किशोर संबंध को बनाए रखें

परिवार 20 €

21 ट्रिसोमी वाले बच्चे में संचार को विकसित करना

शुरू करें

- 21 ट्रिसोमी वाले बच्चे में संचार को विकसित करना**
- ट्रिसोमी 21 में भाषा की विशेषताओं को समझें
 - वैकल्पिक और संवर्धित संचार तकनीकें
 - शब्दावली और वाक्यों को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियाँ
 - भाषण चिकित्सकों और शिक्षा टीमों के साथ सहयोग

परिवार 20 €

अपने त्रिसोमी बच्चे को अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद करना

शुरू करें

- अपने त्रिसोमी बच्चे को अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद करना**
- ट्रिसोमी 21 में भावनात्मक विशेषताओं को समझें
 - बच्चे के प्रोफाइल के अनुसार विनियमन उपकरण
 - भावनात्मक संकेतों को रोके और शांत करें
 - आत्मविश्वास और भावनात्मक स्वायत्तता को मजबूत करें

परिवार 20 €

एक बच्चे को ट्रिसोमी 21 के साथ समर्थन करना: दैनिक जीवन के लिए कुंजी और समाधान

शुरू करें

- एक बच्चे को ट्रिसोमी 21 के साथ समर्थन करना: दैनिक जीवन के लिए कुंजी और समाधान**
- दैनिक शक्तियों और कठिनाइयों की पहचान करें
 - अनुकूलित शैक्षिक गतिविधियों को लागू करें
 - स्वायत्तता को बढ़ावा दें और उपलब्धियों की सराहना करें
 - भाषा और संचार को प्रोत्साहित करें

परिवार 20 €

हमारे ऑनलाइन कैटलॉग में सभी पाठ्यक्रम देखें

ट्रिसोमी 21 (किशोर, वयस्क) · वयस्क ऑटिज़्म · वयस्क ADHD · वयस्क DYS · स्वस्थ उम्र बढ़ना · स्मृति · MS · मस्तिष्क आघात · और भी बहुत कुछ...

www.dynseo.com/hi/hamari-formations/